

सेवा में  
सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के  
प्रधानाचार्य/ संस्थान प्रमुख

**विषय: कक्षा X और XII दोनों के परिणाम, 2022 की गणना/संगणना के संबंध में**

महोदय / महोदया,

आप जानते हैं कि वर्ष 2022 में दसवीं और बारहवीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं दो टर्म अर्थात् टर्म I और टर्म II में आयोजित की गई थीं। दोनों कक्षाओं का परिणाम 22.07.2022 को घोषित किया गया है। परिणाम की गणना करते समय, टर्म I को 30% वेटेज दिया गया है और टर्म II को 70% वेटेज दिया गया है। तदनुसार, अंतिम परिणामों की गणना की गई है।

परिणामों की गणना के बारे में छात्रों और स्कूलों को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिया गया है:-

टर्म I		टर्म II	
थ्योरी को दिए गए अधिकतम अंक	40	थ्योरी को दिए गए अधिकतम अंक	40
प्रैक्टिकल/ आईए को दिए गए अधिकतम अंक	10	प्रैक्टिकल/ आईए को दिए गए अधिकतम अंक	10
थ्योरी में प्राप्त अंक	30	थ्योरी में प्राप्त अंक	20
प्रैक्टिकल / आईए में प्राप्त अंक	09	प्रैक्टिकल / आईए में प्राप्त अंक	08
टर्म I में थ्योरी की 30% वेटेज की गणना		टर्म II में थ्योरी की 70% वेटेज की गणना	
थ्योरी में प्राप्त किए गए अंकों को दोगुना करें	30X2=60	थ्योरी में प्राप्त किए गए अंकों को दोगुना करें	20X2=40
60 का 30%	18	40 का 70%	28
तो, टर्म I के 30% अंक होंगे	18	तो, टर्म II के 70% अंक होंगे	28

थ्योरी में अंतिम अंक = 18 (टर्म I) + 28 (टर्म II) = 46

प्रैक्टिकल/आईए में अंतिम अंक = 09+08 = 17

विषय में कुल अंक = 46 (थ्योरी) + 17 (प्रैक्टिकल / आईए) = 63

यह अनुरोध किया जाता है कि यदि कोई छात्र किसी भी विषय में अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन करना चाहता है (26.07.2022 से शुरू किया जाना है) या यह जानना चाहता है कि परिणाम की गणना कैसे की गई है, तो इसे उपरोक्त उदाहरण का उपयोग करके समझाया जा सकता है।

मुझे विश्वास है कि आपके प्रयासों से छात्र के सत्यापन प्रक्रिया के लिए अनावश्यक आवेदन करने और समय के बचाव में सहायता मिलेगी।

हस्ता/-  
(डॉ. संयम भारद्वाज)  
परीक्षा नियंत्रक